

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 7] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 11, 1983/पौष 21, 1904
No. 7] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 11 1983/PAUSA 21, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वार्तापत्र संकलन

नियति व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 1-ईटीसी(पीएन)/83

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 1983

विषय :—1-1-1983 से 31-12-1983 तक सम्बन्धित राज्य अमेरिका, यूरोपीय आर्थिक
समुदाय के सदस्य राज्यों—कनाडा, स्वीडन, आस्ट्रिया और फिनलैंड
को नूतन सामान आदेश-3 के अन्तर्गत सूत के कुछ कपड़ों और/वा
ऊन और मनुष्य निर्मित धातों से तैयार मर्दों के निर्यात के लिए योजना ।

सं. 2/53/82-ई-1.—उपरोक्त विषय पर, सार्वजनिक सूचना सं. 36-ई टी
सी(पीएन)/82 दिनांक 18 सितम्बर, 1982 की ओर ध्यान दिया जाता है ।

2. यूरोपीय वार्थिक समुदाय और संयुक्त राज्य अमरीका को कमालों के निर्यात के मामले में निष्पादित किए जाने वाले निष्पादन बांड की दर 12 पैसे प्रति दर्जन है न कि 12 पैसे प्रति कमाल । तदनुसार, उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना की कड़िका 5 की पंक्ति 7 में जहां कहीं भी '12 पैसे प्रति कमाल' शब्द आए उन के स्थान पर '12 पैसे प्रति दर्जन' पढ़ा जाएगा । उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना की अन्य सभी शर्तें ज्यों की त्यों रहेंगी ।

मानि नारायणस्वामी, मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

EXPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 1-ETC(PN)/83

New Delhi, the 11th January, 1983

Subject: Scheme of exports under GCL 3 of certain fabrics and/or made-up items made from Cotton, Wool and man-made fibres to USA, European Economic Community Member—States, Canada, Sweden, Austria and Finland from 1-1-1983 to 31-12-1983.

No. 2[53/82]E.I.—Attention is invited to Public Notice No. 36-ETC(PN)/82 dated 18th September, 1982 on the above subject.

2 The rate of performance bond to be executed for export of handkerchiefs to EEC and U.S.A. is @ 12 Paise per dozen and not 12 Paise per piece. Accordingly in Para 5 Line 7 of the aforesaid Public Notice, the words "12 Paise per piece" shall be read as "12 Paise per dozen" ab initio. All other conditions of the aforesaid Public Notice shall remain unaltered.

MANI NARAYANSWAMI, Chief Controller of Imports & Exports.